

Roll. No. ....

Question Booklet Number

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--

**B.Com. (SEM.-VI) (NEP) EXAMINATION, 2025-26**

**COMMERCE**

**( Accounting For Managers )**

**Paper Code**

C	0	1	0	6	0	1	T
---	---	---	---	---	---	---	---

**Question Booklet  
Series**

**D**

**Time : 1 : 30 Hours**

**Max. Marks : 75**

**Instructions to the Examinee :**

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 100 questions. Examinee is required to answer only 75 questions in the OMR Answer-Sheet provided and not in the question booklet. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.
4. Four alternative answers are mentioned for each question as - A, B, C & D in the booklet. The candidate has to choose the correct / answer and mark the same in the OMR Answer-Sheet as per the direction :

**(Remaining instructions on last page)**

**परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :**

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को केवल 75 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आन्सर-शीट पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, उसे तुरन्त बदल लें।
4. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर- A, B, C एवं D हैं। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से सही उत्तर छँटना है। उत्तर को OMR उत्तर-पत्रक में सम्बन्धित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है :

**(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. What is the formula for the P/V Ratio?</p> <p>(A) <math>(\text{Contribution} / \text{Sales}) \times 100</math></p> <p>(B) <math>(\text{Fixed Cost} / \text{Sales}) \times 100</math></p> <p>(C) <math>(\text{Profit} / \text{Sales}) \times 100</math></p> <p>(D) None of these</p> | <p>1. लाभ-मात्रा अनुपात का सूत्र क्या है?</p> <p>(A) <math>(\text{अंशदान} / \text{बिक्री}) \times 100</math></p> <p>(B) <math>(\text{स्थिर लागत} / \text{बिक्री}) \times 100</math></p> <p>(C) <math>(\text{लाभ} / \text{बिक्री}) \times 100</math></p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>2. What is essential for effective budgeting?</p> <p>(A) Only large offices</p> <p>(B) Clear objectives and top management support</p> <p>(C) Only computers</p> <p>(D) None of these</p>  | <p>2. प्रभावी बजटिंग के लिए क्या आवश्यक है?</p> <p>(A) केवल बड़े ऑफिस</p> <p>(B) स्पष्ट लक्ष्य और उच्च प्रबंधन का सहयोग</p> <p>(C) केवल कम्प्यूटर</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p>   |
| <p>3. Product pricing under marginal costing depends on :</p> <p>(A) Only fixed cost</p> <p>(B) Marginal cost and desired contribution</p> <p>(C) Only advertising</p> <p>(D) None of these</p>   | <p>3. सीमांत लागत के तहत उत्पाद का मूल्य निर्धारण किस पर निर्भर करता है?</p> <p>(A) केवल स्थिर लागत</p> <p>(B) सीमांत लागत और वांछित योगदान</p> <p>(C) केवल विज्ञापन</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p>  |
| <p>4. What is considered in a 'Make or Buy' decision?</p> <p>(A) Total cost</p> <p>(B) Relevant variable cost</p> <p>(C) Only advertising cost</p> <p>(D) None of these</p>   | <p>4. 'बनाएँ या खरीदें' निर्णय में किसे देखा जाता है?</p> <p>(A) कुल लागत</p> <p>(B) प्रासंगिक परिवर्तनशील लागत</p> <p>(C) केवल विज्ञापन लागत</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p>   |
| <p>5. Selection of the most profitable product mix is based on :</p> <p>(A) High sales</p> <p>(B) Highest contribution per key factor</p> <p>(C) Only old plan</p> <p>(D) None of these</p>   | <p>5. सबसे लाभदायक उत्पाद मिश्रण का चयन कैसे होता है?</p> <p>(A) जिसमें बिक्री अधिक हो</p> <p>(B) जिसमें प्रति इकाई योगदान (की-फैक्टर के अनुसार) अधिकतम हो</p> <p>(C) केवल पुरानी योजना</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p>   |

6. What is the formula for Material Price Variance?
- (A)  $(SQ - AQ) \times SP$   
 (B)  $(Standard\ Price - Actual\ Price) \times Actual\ Quantity$   
 (C)  $(SP - AP) \times SQ$   
 (D) None of these
7. What is the formula for Material Usage Variance?
- (A)  $(SP - AP) \times AQ$   
 (B)  $(Standard\ Quantity - Actual\ Quantity) \times Standard\ Price$   
 (C)  $(SQ - AQ) \times AP$   
 (D) None of these
8. What does the Labour Rate Variance measure?
- (A) Work hours  
 (B) Difference in the rate of payment to labour  
 (C) Only number of workers  
 (D) None of these
9. What does the Labour Efficiency Variance measure?
- (A) Only wages  
 (B) Difference between standard and actual time  
 (C) Only profit  
 (D) None of these
10. What is Reporting to Management?
- (A) Only sending photos  
 (B) Providing information to management for decision-making  
 (C) Only calling meetings  
 (D) None of these
6. सामग्री मूल्य विचरण का सूत्र क्या है?
- (A)  $(SQ - AQ) \times SP$   
 (B)  $(मानक\ मूल्य - वास्तविक\ मूल्य) \times वास्तविक\ मात्रा$   
 (C)  $(SP - AP) \times SQ$   
 (D) इनमें से कोई नहीं
7. सामग्री उपयोग विचरण का सूत्र क्या है?
- (A)  $(SP - AP) \times AQ$   
 (B)  $(मानक\ मात्रा - वास्तविक\ मात्रा) \times मानक\ मूल्य$   
 (C)  $(SQ - AQ) \times AP$   
 (D) इनमें से कोई नहीं
8. श्रम दर विचरण क्या मापता है?
- (A) काम के घंटे  
 (B) श्रम के भुगतान की दर में अंतर  
 (C) केवल मजदूरों की संख्या  
 (D) इनमें से कोई नहीं
9. श्रम दक्षता विचरण क्या मापता है?
- (A) केवल मजदूरी  
 (B) प्रमाप समय और वास्तविक समय का अंतर  
 (C) केवल लाभ  
 (D) इनमें से कोई नहीं
10. प्रबंधन को रिपोर्टिंग का अर्थ क्या है?
- (A) केवल फोटो भेजना  
 (B) निर्णय लेने हेतु प्रबंधन को सूचनाओं का प्रेषण  
 (C) केवल मीटिंग बुलाना  
 (D) इनमें से कोई नहीं

- |   |  |
|---|--|
| <p>11. What is the meaning of Budgeting?</p> <p>(A) Only past records</p> <p>(B) Quantitative statement of future plan of action</p> <p>(C) Only cash</p> <p>(D) None of these</p>        | <p>11. बजटिंग का अर्थ क्या है?</p> <p>(A) केवल पिछला रिकॉर्ड</p> <p>(B) भविष्य की कार्य योजना का मात्रात्मक विवरण</p> <p>(C) केवल नकद</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p>                     |
| <p>12. Main objective of Budgetary Control is :</p> <p>(A) Scaring employees</p> <p>(B) Planning, Coordination, and Control</p> <p>(C) Only saving tax</p> <p>(D) None of these</p>       | <p>12. बजट नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है :</p> <p>(A) कर्मचारियों को डराना</p> <p>(B) नियोजन, समन्वय और नियंत्रण</p> <p>(C) केवल कर बचाना</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p>                 |
| <p>13. What is a Flexible Budget?</p> <p>(A) One that stays fixed</p> <p>(B) One that changes as per different activity levels</p> <p>(C) For one month only</p> <p>(D) None of these</p> | <p>13. लचीला बजट किसे कहते हैं?</p> <p>(A) जो स्थिर रहता है</p> <p>(B) जो विभिन्न गतिविधि स्तरों के अनुसार बदलता है</p> <p>(C) जो केवल एक महीने के लिए हो</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>14. Where does Zero Based Budgeting start from?</p> <p>(A) From last year's budget</p> <p>(B) From zero base (fresh start)</p> <p>(C) Only by estimation</p> <p>(D) None of these</p>  | <p>14. शून्य आधारित बजटिंग की शुरुआत कहाँ से होती है?</p> <p>(A) पिछले साल के बजट से</p> <p>(B) शून्य आधार से (नए सिरे से)</p> <p>(C) केवल अनुमान से</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p>      |
| <p>15. What is a major limitation of Budgeting?</p> <p>(A) It is very cheap</p> <p>(B) It is only a future estimate</p> <p>(C) It is very simple</p> <p>(D) None of these</p>             | <p>15. बजटिंग की एक मुख्य सीमा क्या है?</p> <p>(A) यह बहुत सस्ता है</p> <p>(B) यह केवल भविष्य का अनुमान है</p> <p>(C) यह बहुत सरल है</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p>                      |

16. To whom are variances reported?
- (A) Customers  
(B) Related departments and top management  
(C) Only external bank  
(D) None of these
17. What is meant by 'Management by Exception' (MBE) in variance analysis?
- (A) Focusing on everything  
(B) Focusing only on significant variances  
(C) No focus at all  
(D) None of these
18. What is necessary for the success of a standard costing system?
- (A) Only very high standards  
(B) Setting reliable and realistic standards  
(C) Only advertising  
(D) None of these
19. Classification of reports can be done based on :
- (A) Only random selection  
(B) Subject-matter, Time, and Management level  
(C) Only names of employees  
(D) None of these
20. Who can be responsible for material variance?
- (A) Only Bank  
(B) Purchase or Production department  
(C) Only Customer  
(D) None of these
16. विचरणों की रिपोर्टिंग की जाती है :
- (A) ग्राहकों को  
(B) सम्बन्धित विभाग और उच्च प्रबंधन को  
(C) केवल बाहरी बैंक को  
(D) इनमें से कोई नहीं
17. विचरण विश्लेषण में 'मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन' (MBE) का क्या अर्थ है?
- (A) हर छोटी बात पर ध्यान देना  
(B) केवल महत्वपूर्ण विचरणों पर ध्यान देना  
(C) किसी बात पर ध्यान न देना  
(D) इनमें से कोई नहीं
18. प्रमाप लागत प्रणाली की सफलता के लिए क्या जरूरी है?
- (A) केवल बहुत उच्च प्रमाप  
(B) विश्वसनीय और यथार्थवादी प्रमापों का निर्धारण  
(C) केवल विज्ञापन  
(D) इनमें से कोई नहीं
19. रिपोर्ट्स का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है?
- (A) केवल रैंडम चयन  
(B) विषय-वस्तु, समय और प्रबंधन स्तर  
(C) केवल कर्मचारियों के नाम  
(D) इनमें से कोई नहीं
20. सामग्री विचरण के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है?
- (A) केवल बैंक  
(B) खरीद विभाग या उत्पादन विभाग  
(C) केवल ग्राहक  
(D) इनमें से कोई नहीं

21. What is a key factor in budgeting?
- (A) Any factor  
(B) Factor that limits budget activities  
(C) Only cash  
(D) None of these
22. Success of Budgetary Control System depends on:
- (A) Only good files  
(B) Constant monitoring and feedback  
(C) Only advertising  
(D) None of these
23. How to increase the Margin of Safety?
- (A) Reducing sales  
(B) Increasing sales or reducing fixed costs  
(C) Stopping ads  
(D) None of these
24. At BEP, 'Contribution' is equal to :
- (A) Profit  
(B) Fixed Cost  
(C) Variable Cost  
(D) None of these
25. What is the meaning of 'Planning' in Budgeting?
- (A) Only past events  
(B) Setting future goals and ways to achieve them  
(C) Only meetings  
(D) None of these
21. बजटिंग में प्रमुख कारक क्या है?
- (A) कोई भी कारक  
(B) वह कारक जो बजट की गतिविधियों को सीमित करता है  
(C) केवल नकद  
(D) इनमें से कोई नहीं
22. बजट नियंत्रण प्रणाली की सफलता किस पर निर्भर करती है?
- (A) केवल अच्छी फाइलें  
(B) निरंतर निगरानी और फीडबैक  
(C) केवल विज्ञापन  
(D) इनमें से कोई नहीं
23. अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए सुरक्षा की सीमा को कैसे बढ़ाया जा सकता है?
- (A) केवल बिक्री कम करके  
(B) बिक्री बढ़ाकर या स्थिर लागत कम करके  
(C) केवल विज्ञापन रोककर  
(D) इनमें से कोई नहीं
24. सम-विच्छेद बिंदु पर 'योगदान' किसके बराबर होता है?
- (A) लाभ  
(B) स्थिर लागत  
(C) परिवर्तनशील लागत  
(D) इनमें से कोई नहीं
25. बजटिंग में 'नियोजन' का क्या अर्थ है?
- (A) केवल पुरानी बातें  
(B) भविष्य के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों का निर्धारण  
(C) केवल मीटिंग  
(D) इनमें से कोई नहीं

26. When is the labour efficiency variance favourable?
- (A) Actual time > Standard  
(B) Actual time < Standard  
(C) When work stops  
(D) None of these
27. What is the importance of 'Timeliness' in reporting?
- (A) No importance  
(B) So management can take timely corrective actions  
(C) Just for show  
(D) None of these
28. What does the disposal of variances mean?
- (A) Throwing them away  
(B) Transferring them to the P&L account  
(C) Hiding them  
(D) None of these
29. What is a main principle of management reports?
- (A) Complexity  
(B) Consistency and Comparison  
(C) Only oral format  
(D) None of these
30. What is the relation between Standard Costing and Budgetary Control?
- (A) Both are opposite to each other  
(B) Both are complementary and help in control  
(C) No relation  
(D) None of these
26. श्रम दक्षता विचरण अनुकूल कब होता है?
- (A) जब वास्तविक समय > प्रमाप समय  
(B) जब वास्तविक समय < प्रमाप समय  
(C) जब काम रुक जाए  
(D) इनमें से कोई नहीं
27. रिपोर्टिंग में 'समयबद्धता' का क्या महत्व है?
- (A) कोई महत्व नहीं  
(B) ताकि प्रबंधन समय पर सुधारात्मक कदम उठा सके  
(C) केवल दिखावे के लिए  
(D) इनमें से कोई नहीं
28. विचरणों का निपटारा का क्या अर्थ है?
- (A) उन्हें कूड़े में डालना  
(B) उन्हें लाभ-हानि खाते में स्थानांतरित करना  
(C) उन्हें छिपाना  
(D) इनमें से कोई नहीं
29. प्रबंधन रिपोर्टों का मुख्य सिद्धांत कौन-सा है?
- (A) जटिलता  
(B) निरंतरता और तुलना  
(C) केवल मौखिक  
(D) इनमें से कोई नहीं
30. प्रमाप लागत और बजटीय नियंत्रण में क्या सम्बन्ध है?
- (A) दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं  
(B) दोनों पूरक हैं और नियंत्रण में मदद करते हैं  
(C) कोई सम्बन्ध नहीं  
(D) इनमें से कोई नहीं

31. What is Standard Costing?
- (A) Only past cost  
(B) Pre-determined cost compared with actual cost  
(C) Only advertising cost  
(D) None of these
32. What is the main objective of Standard Costing?
- (A) Paying employees  
(B) Cost control and efficiency measurement  
(C) Only counting cash  
(D) None of these
33. What is Variance Analysis?
- (A) To see only profit  
(B) Calculation and analysis of the difference between standard and actual cost  
(C) To see only loss  
(D) None of these
34. What is Favourable Variance?
- (A) When actual cost > standard  
(B) When actual cost < standard  
(C) When both are equal  
(D) None of these
35. What is Adverse Variance?
- (A) Actual < Standard  
(B) Actual > Standard  
(C) Profit only  
(D) None of these
31. प्रमाण लागत का अर्थ क्या है?
- (A) केवल पुरानी लागत  
(B) पूर्व-निर्धारित लागत जिसके साथ वास्तविक लागत की तुलना होती है  
(C) केवल विज्ञापन लागत  
(D) इनमें से कोई नहीं
32. प्रमाण लागत का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- (A) कर्मचारियों को वेतन देना  
(B) लागत नियंत्रण और दक्षता मापन  
(C) केवल नकद गिनना  
(D) इनमें से कोई नहीं
33. विचरण विश्लेषण क्या है?
- (A) केवल लाभ देखना  
(B) प्रमाण और वास्तविक लागत के अंतर की गणना और विश्लेषण करना  
(C) केवल नुकसान देखना  
(D) इनमें से कोई नहीं
34. अनुकूल विचरण क्या है?
- (A) जब वास्तविक लागत प्रमाण से अधिक हो  
(B) जब वास्तविक लागत प्रमाण से कम हो  
(C) जब दोनों बराबर हों  
(D) इनमें से कोई नहीं
35. प्रतिकूल विचरण क्या है?
- (A) वास्तविक लागत < प्रमाण लागत  
(B) वास्तविक लागत > प्रमाण लागत  
(C) केवल लाभ  
(D) इनमें से कोई नहीं

36. What is a major principle of reporting?
- (A) Being complex  
(B) Timeliness, Accuracy, and Conciseness  
(C) Only written format  
(D) None of these
37. Why is reporting done at different levels of management?
- (A) To pass only time  
(B) To meet different information needs of various levels  
(C) To scare employees  
(D) None of these
38. What are Routine Reports?
- (A) Given occasionally  
(B) Given at regular intervals (e.g., daily, weekly)  
(C) Only on special occasions  
(D) None of these
39. When are Special Reports prepared?
- (A) Every day  
(B) For specific problems or investigations  
(C) For the tax department only  
(D) None of these
40. What is the main benefit of Reports?
- (A) Only a pile of papers  
(B) Effective control and future planning  
(C) Only past events  
(D) None of these
36. रिपोर्टिंग का एक मुख्य सिद्धांत क्या है?
- (A) बहुत जटिल होना  
(B) समयबद्धता, सटीकता और संक्षिप्तता  
(C) केवल लिखित होना  
(D) इनमें से कोई नहीं
37. प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर रिपोर्टिंग क्यों की जाती है?
- (A) केवल समय बिताने के लिए  
(B) विभिन्न स्तरों की अलग-अलग सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु  
(C) केवल कर्मचारियों को डराने के लिए  
(D) इनमें से कोई नहीं
38. नियमित रिपोर्ट क्या होती हैं?
- (A) जो कभी-कभी दी जाएँ  
(B) जो नियमित अंतराल (जैसे दैनिक, साप्ताहिक) पर दी जाएँ  
(C) केवल विशेष अवसर पर  
(D) इनमें से कोई नहीं
39. विशेष रिपोर्ट कब बनाई जाती है?
- (A) प्रतिदिन  
(B) विशेष समस्याओं या जाँच हेतु  
(C) केवल कर विभाग हेतु  
(D) इनमें से कोई नहीं
40. रिपोर्ट्स का मुख्य लाभ क्या है?
- (A) केवल कागजों का ढेर  
(B) प्रभावी नियंत्रण और भविष्य का नियोजन  
(C) केवल पुरानी बातें  
(D) इनमें से कोई नहीं

41. What is the basis of a Sales Budget?
- (A) Only Employees  
(B) Sales Forecast  
(C) Only Machinery  
(D) None of these
42. Why is a Cash Budget prepared?
- (A) Only to see profit  
(B) To estimate future cash receipts and payments  
(C) Only for audit  
(D) None of these
43. What is Fixed Cost?
- (A) Changes with production  
(B) Stays fixed despite changes in production level  
(C) Only in cash  
(D) None of these
44. What is Variable Cost?
- (A) Never changes  
(B) Changes directly with production volume  
(C) Only rent  
(D) None of these
45. What does a BEP chart show?
- (A) Only profit  
(B) Relation between cost and revenue at different levels  
(C) Only loss  
(D) None of these
41. बिक्री बजट का आधार क्या है?
- (A) केवल कर्मचारी  
(B) बिक्री पूर्वानुमान  
(C) केवल मशीनरी  
(D) इनमें से कोई नहीं
42. नकद बजट क्यों बनाया जाता है?
- (A) केवल लाभ देखने के लिए  
(B) नकद की भविष्य की प्राप्ति और भुगतान के अनुमान के लिए  
(C) केवल ऑडिट के लिए  
(D) इनमें से कोई नहीं
43. स्थिर लागत क्या है?
- (A) जो उत्पादन के साथ बदलती है  
(B) जो उत्पादन के स्तर में बदलाव के बावजूद स्थिर रहती है  
(C) जो केवल नकद में हो  
(D) इनमें से कोई नहीं
44. परिवर्तनशील लागत क्या है?
- (A) जो कभी नहीं बदलती  
(B) जो उत्पादन की मात्रा के साथ सीधे बदलती है  
(C) केवल रेंट  
(D) इनमें से कोई नहीं
45. सम-विच्छेद चार्ट क्या दर्शाता है?
- (A) केवल लाभ  
(B) विभिन्न उत्पादन स्तरों पर लागत और राजस्व का सम्बन्ध  
(C) केवल हानि  
(D) इनमें से कोई नहीं

46. What is a Master Budget?
- (A) Only sales budget  
(B) Summary of all functional budgets  
(C) Only cash budget  
(D) None of these
47. What is the main principle of Marginal Costing?
- (A) All costs are fixed  
(B) Dividing costs into fixed and variable  
(C) Only fixed cost  
(D) None of these
48. How is Contribution calculated?
- (A) Sales + Profit  
(B) Sales – Variable Cost  
(C) Sales + Fixed Cost  
(D) None of these
49. Break Even Point is the point where :
- (A) Profit is maximum  
(B) No profit, No loss  
(C) Only fixed cost is recovered  
(D) None of these
50. What does Margin of Safety show?
- (A) Amount of profit  
(B) Difference between actual sales and BEP sales  
(C) Only cash  
(D) None of these
46. मास्टर बजट क्या होता है?
- (A) केवल बिक्री बजट  
(B) सभी कार्यात्मक बजटों का सारांश  
(C) केवल नकद बजट  
(D) इनमें से कोई नहीं
47. सीमांत लागत का मुख्य सिद्धांत क्या है?
- (A) सभी लागतें स्थिर हैं  
(B) लागतों को स्थिर और परिवर्तनशील में बाँटना  
(C) केवल स्थिर लागत  
(D) इनमें से कोई नहीं
48. योगदान की गणना कैसे की जाती है?
- (A) बिक्री + लाभ  
(B) बिक्री – परिवर्तनशील लागत  
(C) बिक्री + स्थिर लागत  
(D) इनमें से कोई नहीं
49. सम-विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जहाँ :
- (A) लाभ अधिकतम होता है  
(B) न लाभ हो और न ही हानि  
(C) केवल स्थिर लागत वसूल हो  
(D) इनमें से कोई नहीं
50. सुरक्षा की सीमा क्या दर्शाती है?
- (A) लाभ की राशि  
(B) वास्तविक बिक्री और सम-विच्छेद बिक्री का अंतर  
(C) केवल नकद  
(D) इनमें से कोई नहीं

51. Financial Accounting follows which principles?
- (A) GAAP and IFRS  
(B) Only company's wish  
(C) No set principles  
(D) None of these
52. Management Accounting includes which type of information?
- (A) Only monetary  
(B) Both monetary and non-monetary  
(C) Only non-monetary  
(D) None of these
53. Why is Management Accounting necessary for planning?
- (A) It hides old mistakes  
(B) It helps in choosing among alternative business actions  
(C) It is only for banks  
(D) None of these
54. Who interprets financial statements?
- (A) Management Accountant  
(B) Only typist  
(C) Only customer  
(D) None of these
55. What does a Comparative Income Statement show?
- (A) Only assets  
(B) Changes in operational income over years  
(C) Only cash balance  
(D) None of these
51. वित्तीय लेखांकन किन सिद्धांतों का पालन करता है?
- (A) GAAP और IFRS  
(B) केवल कंपनी की इच्छा  
(C) कोई सिद्धांत नहीं  
(D) इनमें से कोई नहीं
52. प्रबंधकीय लेखांकन में किस प्रकार की सूचनाओं का समावेश होता है?
- (A) केवल मौद्रिक  
(B) दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक  
(C) केवल गैर-मौद्रिक  
(D) इनमें से कोई नहीं
53. नियोजन के लिए प्रबंधकीय लेखांकन क्यों आवश्यक है?
- (A) यह पुरानी गलतियों को छिपाता है  
(B) यह वैकल्पिक व्यावसायिक कार्यों के बीच चयन करने में मदद करता है  
(C) यह केवल बैंक के लिए जरूरी है  
(D) इनमें से कोई नहीं
54. वित्तीय विवरणों की व्याख्या कौन करता है?
- (A) प्रबंधन लेखाकार  
(B) केवल टाइपिस्ट  
(C) केवल ग्राहक  
(D) इनमें से कोई नहीं
55. तुलनात्मक आय विवरण क्या दर्शाता है?
- (A) केवल संपत्ति  
(B) विभिन्न वर्षों की परिचालन आय में परिवर्तन  
(C) केवल नकद बैलेंस  
(D) इनमें से कोई नहीं

56. What is the Capital Gearing Ratio?
- (A) Profitability Ratio  
(B) Solvency Ratio  
(C) Activity Ratio  
(D) None of these
57. Fund Flow Statement is prepared by :
- (A) External auditors  
(B) Internal management  
(C) Only tax department  
(D) None of these
58. What is included in 'Cash and Cash Equivalents' in a Cash Flow Statement?
- (A) Only Fixed assets  
(B) Cash, Bank balance, and Short-term investments  
(C) Only Stock  
(D) None of these
59. What is the formula for the Proprietary Ratio?
- (A) Debt / Equity  
(B) Proprietor's Fund / Total Assets  
(C) Assets / Debt  
(D) None of these
60. What does the Fixed Asset Turnover Ratio show?
- (A) Price of assets  
(B) Efficiency in making sales using assets  
(C) Only purchase of assets  
(D) None of these
56. पूँजी गियरिंग अनुपात क्या है?
- (A) लाभदायकता अनुपात  
(B) वित्तीय स्थिति अनुपात  
(C) गतिविधि अनुपात  
(D) इनमें से कोई नहीं
57. फंड फ्लो विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है?
- (A) बाहरी ऑडिटर्स  
(B) आंतरिक प्रबंधन  
(C) केवल कर विभाग  
(D) इनमें से कोई नहीं
58. नकद प्रवाह विवरण में 'नकद और नकद समकक्ष' में क्या आता है?
- (A) केवल अचल संपत्ति  
(B) नकद, बैंक शेष और अल्पकालिक निवेश  
(C) केवल स्टॉक  
(D) इनमें से कोई नहीं
59. स्वामित्व अनुपात का सूत्र क्या है?
- (A) ऋण/समता  
(B) स्वामित्व का कोष / कुल संपत्ति  
(C) संपत्ति / ऋण  
(D) इनमें से कोई नहीं
60. अचल संपत्ति टर्नओवर अनुपात क्या दर्शाता है?
- (A) संपत्तियों की कीमत  
(B) संपत्तियों का उपयोग कर बिक्री करने की दक्षता  
(C) केवल संपत्तियों की खरीद  
(D) इनमें से कोई नहीं

61. Management Accounting is primarily concerned with :
- (A) External reporting  
(B) Accounting information useful to management  
(C) Only tax records  
(D) None of these
62. What is the nature of Management Accounting?
- (A) Historical  
(B) Futuristic  
(C) Only current based  
(D) None of these
63. Financial Accounting uses only what type of data?
- (A) Qualitative  
(B) Quantitative  
(C) Both (A) and (B)  
(D) None of these
64. How frequent is reporting in Management Accounting?
- (A) Only annual  
(B) As per desire of Management  
(C) Never  
(D) Once in 5 years
65. Which is an important technique of Management Accounting?
- (A) Only Making Vouchers  
(B) Budgetary Control  
(C) Only Audit  
(D) None of these
61. प्रबंधकीय लेखांकन का मुख्य सरोकार किससे है?
- (A) बाहरी रिपोर्टिंग  
(B) प्रबंधन के लिए उपयोगी लेखांकन जानकारी  
(C) केवल कर रिकॉर्ड  
(D) इनमें से कोई नहीं
62. प्रबंधकीय लेखांकन की प्रकृति कैसी है?
- (A) ऐतिहासिक  
(B) भविष्योन्मुखी  
(C) केवल वर्तमान आधारित  
(D) इनमें से कोई नहीं
63. वित्तीय लेखांकन में केवल किस प्रकार के डेटा का उपयोग होता है?
- (A) गुणात्मक  
(B) मात्रात्मक  
(C) दोनों (A) और (B)  
(D) इनमें से कोई नहीं
64. प्रबंधकीय लेखांकन में रिपोर्टिंग की आवृत्ति कैसी होती है?
- (A) केवल वार्षिक  
(B) प्रबंधन की इच्छा के अनुसार  
(C) कभी नहीं  
(D) 5 साल में एक बार
65. प्रबंधकीय लेखांकन का एक महत्वपूर्ण उपकरण कौन-सा है?
- (A) केवल वाउचर बनाना  
(B) बजटीय नियंत्रण  
(C) केवल ऑडिट  
(D) इनमें से कोई नहीं

66. How is Working Capital calculated?
- (A) Total Assets + Total Liabilities  
 (B) Current Assets – Current Liabilities  
 (C) Fixed Assets – Current Liabilities  
 (D) None of these
67. Which are 'Financing Activities' in a Cash Flow Statement?
- (A) Buying goods  
 (B) Issue of shares/debentures and repayment of loans  
 (C) Selling furniture  
 (D) None of these
68. What does the Operating Ratio measure?
- (A) Total profit  
 (B) Efficiency of operating costs  
 (C) Only advertising cost  
 (D) None of these
69. What is the Net Profit Ratio?
- (A)  $(\text{Gross Profit} / \text{Sales}) \times 100$   
 (B)  $(\text{Net Profit} / \text{Sales}) \times 100$   
 (C)  $(\text{Sales} / \text{Net Profit}) \times 100$   
 (D) None of these
70. What is not included in Liquid Assets?
- (A) Cash  
 (B) Stock  
 (C) Debtors  
 (D) Bank Balance
66. कार्यशील पूँजी की गणना कैसे होती है?
- (A) कुल संपत्ति + कुल देनदारी  
 (B) चालू संपत्ति – चालू देनदारी  
 (C) अचल संपत्ति – चालू देनदारी  
 (D) इनमें से कोई नहीं
67. नकद प्रवाह विवरण में 'वित्तीय गतिविधियाँ' कौन-सी हैं?
- (A) माल खरीदना  
 (B) शेयर/डिबेंचर का निर्गमन और ऋण का भुगतान  
 (C) फर्नीचर बेचना  
 (D) इनमें से कोई नहीं
68. परिचालन अनुपात क्या मापता है?
- (A) कुल लाभ  
 (B) परिचालन लागत की कार्यकुशलता  
 (C) केवल विज्ञापन लागत  
 (D) इनमें से कोई नहीं
69. शुद्ध लाभ अनुपात क्या है?
- (A)  $(\text{सकल लाभ} / \text{बिक्री}) \times 100$   
 (B)  $(\text{शुद्ध लाभ} / \text{बिक्री}) \times 100$   
 (C)  $(\text{बिक्री} / \text{शुद्ध लाभ}) \times 100$   
 (D) इनमें से कोई नहीं
70. तरल संपत्तियों में किसे शामिल नहीं किया जाता है?
- (A) नकद  
 (B) स्टॉक  
 (C) देनदार  
 (D) बैंक बैलेंस

71. Is data published in Management Accounting?
- (A) Yes, in newspapers  
(B) No, it is for internal use  
(C) Only to the govt.  
(D) None of these
72. Which year is taken as the base year for Trend Analysis?
- (A) Current year  
(B) First year  
(C) Last year  
(D) Any random year
73. Parties interested in financial statements are:
- (A) Only owners  
(B) Investors, Creditors and Employees  
(C) Only competitors  
(D) None of these
74. What is the responsibility of a Management Accountant?
- (A) Only depositing cash  
(B) Timely reporting and control of information  
(C) Only selling goods  
(D) None of these
75. Which type of financial analysis compares data over time?
- (A) Horizontal Analysis  
(B) Vertical Analysis  
(C) Both (A) and (B)  
(D) None of these
71. क्या प्रबंधकीय लेखांकन में डेटा का प्रकाशन होता है?
- (A) हाँ, अखबारों में  
(B) नहीं, यह आंतरिक उपयोग के लिए है  
(C) केवल सरकार को  
(D) इनमें से कोई नहीं
72. प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है?
- (A) वर्तमान वर्ष  
(B) प्रथम वर्ष  
(C) अंतिम वर्ष  
(D) कोई भी आकस्मिक (रैंडम) वर्ष
73. वित्तीय विवरणों में रुचि रखने वाले पक्ष कौन-से हैं?
- (A) केवल मालिक  
(B) निवेशक, लेनदार और कर्मचारी  
(C) केवल प्रतिस्पर्धी  
(D) इनमें से कोई नहीं
74. प्रबंधकीय लेखाकार की जिम्मेदारी क्या है?
- (A) केवल नकद जमा करना  
(B) सूचनाओं का समय पर प्रेषण और नियंत्रण  
(C) केवल सामान बेचना  
(D) इनमें से कोई नहीं
75. वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का कौन-सा प्रकार समय के साथ तुलना करता है?
- (A) क्षैतिज विश्लेषण  
(B) लंबवत विश्लेषण  
(C) दोनों (A) और (B)  
(D) इनमें से कोई नहीं

76. What does a Profitability Ratio show?
- (A) Only sales  
(B) Ability of firm to earn profit  
(C) Only debt  
(D) None of these
77. What does the Debt-Equity Ratio measure?
- (A) Short-term debt  
(B) Long-term financial position  
(C) Only cash  
(D) None of these
78. What else is the Activity Ratio called?
- (A) Profitability Ratio  
(B) Turnover Ratio  
(C) Solvency Ratio  
(D) None of these
79. What comes under Operating Activities in Cash Flow?
- (A) Purchase of machine  
(B) Cash from sale of goods  
(C) Taking loan  
(D) Issuing shares
80. Example of 'Sources of Fund' in a Fund Flow Statement :
- (A) Purchase of machine  
(B) Issue of shares  
(C) Repayment of loan  
(D) None of these
76. लाभदायकता अनुपात क्या दर्शाता है?
- (A) केवल बिक्री  
(B) संस्था की लाभ कमाने की क्षमता  
(C) केवल ऋण  
(D) इनमें से कोई नहीं
77. ऋण-समता अनुपात क्या मापता है?
- (A) अल्पकालिक ऋण  
(B) दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति  
(C) केवल नकद  
(D) इनमें से कोई नहीं
78. गतिविधि अनुपात को और क्या कहते हैं?
- (A) लाभदायकता अनुपात  
(B) टर्नओवर अनुपात  
(C) शोधन क्षमता अनुपात  
(D) इनमें से कोई नहीं
79. नकद प्रवाह विवरण की परिचालन गतिविधियों में क्या आता है?
- (A) मशीन की खरीद  
(B) माल की बिक्री से प्राप्त नकद  
(C) ऋण लेना  
(D) शेयर जारी करना
80. फंड फ्लो विवरण में 'फंड के स्रोत' का उदाहरण क्या है?
- (A) मशीन की खरीद  
(B) शेयर जारी करना  
(C) ऋण चुकाना  
(D) इनमें से कोई नहीं

81. What is the main objective of Trend Analysis?  
 (A) Only to see one year's data  
 (B) To see the direction of changes over several years  
 (C) Only stock counting  
 (D) None of these
82. What are Common Size Statements also called?  
 (A) Horizontal Analysis  
 (B) Vertical Analysis  
 (C) Dynamic Analysis  
 (D) None of these
83. Who is interested in the external analysis of financial statements?  
 (A) Production Manager  
 (B) Investors and Creditors  
 (C) Machine Operator  
 (D) None of these
84. What is the status of a Management Accountant?  
 (A) Just a clerk  
 (B) An important part of the management team  
 (C) Only external consultant  
 (D) None of these
85. What is the primary objective of financial analysis?  
 (A) Just accumulating data  
 (B) Assessment of solvency and profitability  
 (C) Only advertisement  
 (D) None of these
81. प्रवृत्ति विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है?  
 (A) केवल एक वर्ष का डेटा देखना  
 (B) कई वर्षों के डेटा में परिवर्तन की दिशा देखना  
 (C) केवल स्टॉक की गणना  
 (D) इनमें से कोई नहीं
82. समान आकार के विवरण को और क्या कहा जाता है?  
 (A) क्षैतिज विश्लेषण  
 (B) लंबवत विश्लेषण  
 (C) गतिशील विश्लेषण  
 (D) इनमें से कोई नहीं
83. वित्तीय विवरणों के बाहरी विश्लेषण में कौन रुचि रखता है?  
 (A) उत्पादन प्रबंधक  
 (B) निवेशक और लेनदार  
 (C) मशीन ऑपरेटर  
 (D) इनमें से कोई नहीं
84. प्रबंधकीय लेखापाल का दर्जा कैसा होता है?  
 (A) केवल एक क्लर्क  
 (B) प्रबंधन टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा  
 (C) केवल बाहरी सलाहकार  
 (D) इनमें से कोई नहीं
85. वित्तीय विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?  
 (A) केवल डेटा संचित करना  
 (B) संस्था की शोधन क्षमता और लाभप्रदता का आकलन  
 (C) केवल विज्ञापन  
 (D) इनमें से कोई नहीं

86. What is the formula for Gross Profit Ratio? 86. सकल लाभ अनुपात का सूत्र क्या है?
- (A)  $(\text{Net Profit} / \text{Sales}) \times 100$  (A)  $(\text{शुद्ध लाभ} / \text{बिक्री}) \times 100$
- (B)  $(\text{Gross Profit} / \text{Sales}) \times 100$  (B)  $(\text{सकल लाभ} / \text{बिक्री}) \times 100$
- (C)  $(\text{Sales} / \text{Assets}) \times 100$  (C)  $(\text{बिक्री} / \text{परिसंपत्ति}) \times 100$
- (D) None of these (D) इनमें से कोई नहीं
87. Example of 'Investing Activities' in a Cash Flow Statement : 87. नकद प्रवाह विवरण में 'निवेश गतिविधियों' का उदाहरण है :
- (A) Paying salary (A) वेतन देना
- (B) Purchase/Sale of fixed assets (B) अचल संपत्तियों की खरीद/बिक्री
- (C) Paying interest (C) ब्याज चुकाना
- (D) None of these (D) इनमें से कोई नहीं
88. What is the objective of a Fund Flow Statement? 88. फंड फ्लो स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है?
- (A) Only cash matching (A) केवल नकद मिलान
- (B) Finding causes of change in working capital (B) कार्यशील पूँजी में परिवर्तन के कारणों का पता लगाना
- (C) Only tax saving (C) केवल कर बचत
- (D) None of these (D) इनमें से कोई नहीं
89. How many categories are there in Cash Flow as per AS-3? 89. AS-3 के अनुसार, नकद प्रवाह विवरण में कितनी श्रेणियाँ होती हैं?
- (A) 2 (A) 2
- (B) 3 (B) 3
- (C) 4 (C) 4
- (D) 5 (D) 5
90. What does the Stock Turnover Ratio show? 90. स्टॉक टर्नओवर अनुपात क्या दर्शाता है?
- (A) Level of profit (A) लाभ का स्तर
- (B) Speed of stock turning into sales (B) स्टॉक का बिक्री में बदलने की गति
- (C) Only stock price (C) केवल स्टॉक की कीमत
- (D) None of these (D) इनमें से कोई नहीं

91. Is Management Accounting mandatory?  
 (A) Yes, legally  
 (B) No, it is optional and voluntary  
 (C) Only for banks  
 (D) Only for govt. institutions
92. What is a limitation of financial statement analysis?  
 (A) It is very simple  
 (B) It is based on historical data  
 (C) It is very cheap  
 (D) None of these
93. In a Common Size Balance Sheet, 'Total Assets' are taken as :  
 (A) 50%  
 (B) 100%  
 (C) 0%  
 (D) 10%
94. What is the main difference between Financial and Management Accounting?  
 (A) Financial accounting is historical, Management accounting is futuristic  
 (B) No difference  
 (C) Both are for external use  
 (D) None of these
95. Cash Flow and Fund Flow are part of which accounting?  
 (A) Only financial Accounting  
 (B) Techniques of Management Accounting  
 (C) Cost Accounting  
 (D) None of these
91. क्या प्रबंधकीय लेखांकन अनिवार्य है?  
 (A) हाँ, कानूनी रूप से  
 (B) नहीं, यह वैकल्पिक और स्वैच्छिक है  
 (C) केवल बैंकों के लिए  
 (D) केवल सरकारी संस्थाओं के लिए
92. वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमा क्या है?  
 (A) यह बहुत सरल है  
 (B) यह ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है  
 (C) यह बहुत सस्ता है  
 (D) इनमें से कोई नहीं
93. समान आकार की बैलेंस शीट में 'कुल संपत्तियों' को क्या माना जाता है?  
 (A) 50%  
 (B) 100%  
 (C) 0%  
 (D) 10%
94. वित्तीय लेखांकन और प्रबंधकीय लेखांकन में मुख्य अंतर क्या है?  
 (A) वित्तीय लेखांकन ऐतिहासिक है, प्रबंधकीय लेखांकन भविष्योन्मुखी है  
 (B) कोई अंतर नहीं है  
 (C) दोनों बाहरी उपयोग के लिए हैं  
 (D) इनमें से कोई नहीं
95. नकद प्रवाह और फंड फ्लो किस लेखांकन का हिस्सा हैं?  
 (A) केवल वित्तीय लेखांकन  
 (B) प्रबंधकीय लेखांकन की तकनीकें  
 (C) लागत लेखांकन  
 (D) इनमें से कोई नहीं

96. What is the main benefit of Ratio Analysis?
- (A) Making data complex  
(B) Simplification and interpretation of financial data  
(C) Only counting cash  
(D) None of these
97. Current Ratio is a measure of :
- (A) Long-term solvency  
(B) Short-term solvency  
(C) Only profit  
(D) None of these
98. What is the Ideal Liquid Ratio?
- (A) 2:1  
(B) 1:1  
(C) 5:1  
(D) 3:1
99. Cash Flow Statement is prepared as per which AS?
- (A) AS-1  
(B) AS-3  
(C) AS-10  
(D) AS-20
100. What is 'Fund' in a Fund Flow Statement?
- (A) Only Cash  
(B) Working Capital  
(C) Total Assets  
(D) None of these
96. अनुपात विश्लेषण का मुख्य लाभ क्या है?
- (A) डेटा को जटिल बनाना  
(B) वित्तीय डेटा का सरलीकरण और व्याख्या  
(C) केवल नकद गिनना  
(D) इनमें से कोई नहीं
97. चालू अनुपात किसका माप है?
- (A) दीर्घकालिक शोधन क्षमता  
(B) अल्पकालिक शोधन क्षमता  
(C) केवल लाभ  
(D) इनमें से कोई नहीं
98. आदर्श तरल अनुपात क्या है?
- (A) 2:1  
(B) 1:1  
(C) 5:1  
(D) 3:1
99. नकद प्रवाह विवरण किस लेखांकन मानक के अनुसार बनाया जाता है?
- (A) AS-1  
(B) AS-3  
(C) AS-10  
(D) AS-20
100. फंड फ्लो स्टेटमेंट में 'फंड' का अर्थ क्या है?
- (A) केवल नकद  
(B) कार्यशील पूँजी  
(C) कुल संपत्ति  
(D) इनमें से कोई नहीं

## **Rough Work / रफ कार्य**

**Example :**

**Question :**

Q.1 (A) ● (C) (D)

Q.2 (A) (B) ● (D)

Q.3 (A) ● (C) (D)

5. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
6. All answers are to be given on OMR Answer Sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
7. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
8. After the completion of the examination, candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
9. There will be no negative marking.
10. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
11. To bring and use of log-book, calculator, pager & cellular phone in examination hall is prohibited.
12. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

**Imp.** On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

**उदाहरण :**

**प्रश्न :**

प्रश्न 1 (A) ● (C) (D)

प्रश्न 2 (A) (B) ● (D)

प्रश्न 3 (A) ● (C) (D)

5. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
6. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
7. ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
8. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
9. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
10. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
11. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैल्कुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
12. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

**महत्वपूर्ण:** प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।